



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1938 (श०)

(सं० पटना 843) पटना, शुक्रवार, 7 अक्टूबर 2016

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

12 अगस्त 2016

सं० 1522—श्री श्री 108 राधाकृष्ण मंदिर, ग्राम—चुन्नी, थाना—मधेपुर भाया—झंझारपुर, जिला—मधुबनी के संबंध में श्री सुशील कुमार झा ने पर्षद में प्रस्तुत अपने आवेदन पत्र द्वारा सूचित किया कि मंदिर सुचारु रूप से चल रहा है। मंदिर की जमीन का दाखिल खारीज और सर्वे मंदिर के नाम से है। इस आवेदन के साथ भगवान राधाकृष्ण के नाम से जामाबंदी रशीद की छायाप्रति एवं अन्य दस्तावेज भी दाखिल किया गया। उक्त आवेदन एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आलोक में पर्षद ने इस न्यास को सार्वजनिक धार्मिक न्यास मानते हुए इस न्यास का निबंधन पर्षद में किया गया जिसकी निबंधन संख्या—4386 है।

इसकी व्यवस्था के लिए श्री सुशील कुमार झा द्वारा ग्यारह सदस्यों का नाम पर्षद में प्रस्तावित किया गया। श्री सुशील कुमार झा द्वारा प्राप्त सूची को अंचल अधिकारी, मधेपुर को भेजते हुये उनसे उक्त सूची में अंकित नामों का सत्यापन कर प्रतिवेदन भेजने का आग्रह पर्षदीय पत्रांक 1393 दिनांक 30.07.2015 द्वारा किया गया। उक्त पत्र के अनुपालन में अंचल अधिकारी, मधेपुर से उनके पत्रांक 161, दिनांक 16.02.2016 द्वारा न्यास समिति के गठन हेतु व्यक्तियों का नाम प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्तावित नामों में से दो नामों को विलोपित करते हुए दो अनुसूचित जाति का नाम अंचल अधिकारी, मधेपुर, जिला—मधुबनी से पर्षदीय पत्रांक 334, दिनांक 04.05.2016 द्वारा मांगा गया। उक्त पर्षदीय पत्र के आलोक में अंचल अधिकारी, मधेपुर, जिला—मधुबनी ने अपने पत्रांक 708, दिनांक 04.07.2016 द्वारा संशोधित सूचि न्यास समिति गठन वास्ते ग्यारह व्यक्तियों का पर्षद में भेजा। इसके आलोक में न्यास के सुचारु प्रबंधन हेतु न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया गया।

अतएव बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा—32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा—81 (1) (ख) एवं 8 (क) के तहत प्रशासक को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री श्री 108 राधाकृष्ण मंदिर, ग्राम+पोस्ट—चुन्नी, थाना—मधेपुर, जिला—मधुबनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण, सुचारु प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा—32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री श्री 108 राधाकृष्ण मंदिर, चुन्नी, न्यास योजना” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री श्री 108 राधाकृष्ण मंदिर, चुन्नी, न्यास समिति” होगा।

2. श्री श्री 108 राधाकृष्ण मंदिर, ग्राम+पोस्ट-चुन्नी, थाना-मधेपुर, जिला-मधुबनी तथा इसकी समस्त चल-अचल सम्पत्ति तथा आय के प्रबंधन, संचालन एवं प्रशासन का अधिकार श्री श्री 108 राधाकृष्ण मंदिर, ग्राम+पोस्ट-चुन्नी, थाना-मधेपुर, जिला-मधुबनी न्यास समिति में निहित होगा।
3. इस न्यास समिति का प्रमुख दायित्व मन्दिर में परम्परागत पूजा-अर्चना, राग-भोग, उत्सव-समैया आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक् प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा।
4. न्यास की समग्र आय समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जायेगी और बैंक खाता का संचालन समिति के सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त के हस्ताक्षर से होगा।
5. मन्दिर में प्राप्त होने वाले सभी चन्दा, चढ़ावा एवं मांगलिक/धार्मिक आयोजनों के लिए निर्धारित राशि के लिए दाताओं को उचित पावती रसीद दी जायेगी और उसका सम्यक् लेखा संधारण किया जायेगा।
6. न्यास समिति के आय-व्यय में शुचिता एवं पारदर्शिता रखेगी।
7. मन्दिर में आने वाल आस्थावान भक्तों के साथ किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जायेगा। कृष्ण जन्माष्टमी आदि विशेष अवसरों पर भक्तों की सुविधा एवं सुरक्षा का ख्याल रखा जायेगा।
8. मन्दिर परिसर में भेंट पात्र रखे जायेंगे जो प्रत्येक माह एक निर्धारित तिथि को न्यास समिति के सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और गणना कर सत्यापित पंजी में प्रविष्टि के बाद बैंक खाता में जमा की जायेगी।
9. न्यास समिति न्यास परिसर को स्वच्छ एवं अतिक्रमणमुक्त रखेगी।
10. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा वार्षिक आय-व्यय का विवरण, बजट, देय शुल्क की राशि एवं बैठकों की कार्यवृत्त पर्षद को ससमय भेजेगी।
11. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक बुलायेंगे। जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे। सचिव समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्तरूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष लेखा की सम्यक् संधारण के लिए जिम्मेवार होंगे।
12. न्यास समिति की बैठक मन्दिर परिसर में प्रत्येक माह होगी।
13. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
14. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि मन्दिर की सम्पत्ति से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लाभान्वित होंगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
15. न्यास समिति को न्यास की कोई सम्पत्ति बेचने, लीज पर देने या किसी प्रकार से अन्य संक्रमण का अधिकार नहीं होगा।
16. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराने हेतु आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करेगी।

उपर्युक्त योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

- | | | |
|---|---|------------|
| (1) श्री सुशील कुमार झा, पिता-स्व० रमाकान्त झा, | — | अध्यक्ष |
| (2) श्री ललित मोहन झा, पिता-स्व० मदन मोहन झा, | — | सचिव |
| (3) श्री शंभुनाथ झा, पिता-स्व० श्यामल झा | — | कोषाध्यक्ष |
| (4) श्री ओमप्रकाश झा, पिता-स्व० राधा रमण झा, | — | सदस्य |
| (5) श्री सुधीर झा, पिता-स्व० गौरी नन्द झा, | — | सदस्य |
| (6) श्री रामचन्द्र झा, पिता-स्व० गोपाल झा, | — | सदस्य |
| (7) श्री राजेन्द्र चौपाल, पिता-स्व० कनक चौपाल, | — | सदस्य |
| (8) श्री बिमल नारायण झा, पिता-श्री घुरन झा, | — | सदस्य |
| (9) श्री नारायण मल्लिक, पिता-स्व० जलेश्वर मल्लिक, | — | सदस्य |
| (10) श्री मुनेश्वर मंडल, पिता-स्व० कारी मंडल, | — | सदस्य |
| (11) श्री अकल मंडल, पिता-ठाको मंडल, | — | सदस्य |

सभी निवासी ग्राम+पोस्ट-चुन्नी, थाना-मधेपुर, जिला-मधुबनी।

यह अधिसूचना निर्गत तिथि से प्रभावी होगी और इसका कार्यकाल 05 (पाँच) वर्षों का होगा।

आदेश से,
संजय कुमार,
प्रशासक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 843-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>